

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2019/भाद्र 13, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 172

No. 205]

DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/BHADRA 13, 1941

[N.C.T.D. No. 172

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

फा. सं. एफ.1/1088/2017/टीई/एडी/20.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं0फा0 24/78/68—डीएच(एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत व्याख्याता, व्यावसायिक स्नातक (विज्ञान एवं मानविकी) के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्।

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में व्याख्याता, व्यावसायिक स्नातक (विज्ञान एवं मानविकी) के पद हेतु भर्ती नियम, 2019 कहा जायेगा।
(2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतन समूह शैक्षिक ग्रेड एवं संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं.**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
6. **बचाव.**—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
व्याख्याता, व्यावसायिक स्नातक (विज्ञान एवं मानविकी)	कुल - 36* अंग्रेजी - 09 गणित - 09 भौतिकी - 09 रसायन - 09 (2019) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। टीप-पद पर भर्ती करने के समय सटीक विषय का संकेत दिया जाएगा	'क' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित, अलिपिकीय	पे बैंड -3 15,600-39,100 / —रुपये जमा अकेडमिक ग्रेड पे 6000 रुपये	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप : आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा के विज्ञापन के अनुसार होगी।	अनिवार्य (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित मानविकी एवं विज्ञान के सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) अभ्यर्थी ने उपरोक्त योग्यताओं के पूर्ण करने के अतिरिक्त यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त तत्समान परीक्षा जैसे एसएलईटी /एसईटी उत्तीर्ण कर ली हो। (iii) इस खण्ड के उपखण्ड (i) तथा (ii) में कुछ भी रहते हुए अभ्यर्थी को 2009 से पूर्व पीएचडी डिग्री दी गई हो या 2009 के पश्चात यूजीसी (पीएचडी अवधि हेतु न्यूनतम मानक एवं पद्धति विनियम, 2009) के अनुसार पीएचडी डिग्री दी गई हो, उसे भर्ती एवं नियुक्ति हेतु एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त की अपेक्षाओं से छूट मिल जाएगी। टीप-1. यदि श्रेणी/ डिविजन नहीं दी गई है तो जोड़ में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी/डिविजन के समकक्ष माना जाएगा। यदि कोई ग्रेड पाइंट प्रणाली अपनाई गई है, तो संचित ग्रेड पाइंट औसत (सीजीपीए) को समकक्ष अंकों में निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाएगा। ग्रेड पाइंट अंकों का प्रतिशत 6.25 55 प्रतिशत 6.75 60 प्रतिशत 7.25 65 प्रतिशत 7.75 70 प्रतिशत 8.25 75 प्रतिशत

					<p>टीप:-2. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>3. यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/ जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>
--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलेन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	एक वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>नोट-3 : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बिमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या लम्बी अवधि के लिए कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से भरा जा सकता है।</p> <p>क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; तथा</p> <p>(ख) कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।</p> <p>टीप -1: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलेन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलेन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	<p>‘क’ वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति</p> <p>1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — अध्यक्ष</p> <p>2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव — सदस्य</p> <p>3. निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग — सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रजनीश सिंह, संयुक्त निदेशक/संयुक्त सचिव, प्रशि. एवं तकनीकी शिक्षा

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2019

F. No. F.1/1088/2017/TE/AD/ 20.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home affairs notification No. F24/78/68-DH (S) dated 24th September 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior approval of the Union Public Service Commission, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Lecturer, Bachelor of Vocational (Science and Humanities) under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

- 1. Short title and commencement:** - (i) These rules may be called the Lecturer, Bachelor of Vocational (Science and Humanities) in Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory Delhi (Recruitment) Rules, 2019.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Number of posts, classification and Level in pay matrix:** - The number of posts, their classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in Column No. (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

- 3. Method of Recruitment, Age limit and other qualification:** - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Column No. (5) to (13) of the said Schedule.

- 4. Disqualifications:**— No person,—

(a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 5. Power to relax:** - Whether the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these Rules with respect to any class or category of person.

- 6. Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the scheduled castes and scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	No. of Posts.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for Direct recruits.	Educational and Other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LECTURER, B.Voc. (Science and Humanities).	Total -- 36* (2019) English - 09 Maths - 09 Physics - 09 Chemistry - 09 *subject to variation dependent	General Central Service, Group 'A' (Gazetted).	Pay Band- 3 Rs. 15,600-39,100 Plus Academic Grade Pay Rs. 6000.	Not Applicable.	Not exceeding thirty five years. (Relaxable for Government Servants upto five years' in accordance with the instructions or order issued by the Central Government).	Essential: i) Master's Degree in relevant subject of Humanities and Science with first class or equivalent, at Bachelor's or Master's Level from any recognized University/Institute; ii) Besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET. iii) Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this clause; a candidate, who has a Ph.D. Degree awarded before 2009, or has been awarded a Ph.D Degree after 2009 in accordance

	<p>on workload.</p> <p>Note: Exact subject will be indicated at the time of making recruitment to the post.</p>				<p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.</p>	<p>with the UGC (Minimum standards and procedure for Award of Ph.D Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment.</p> <p>If a class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class /division. If a Grade point system is adopted, the CGPA will be converted to equivalent marks as below :-</p> <table><tr><th>Grade point</th><th>Equivalent Percentage of marks</th></tr><tr><td>6.25</td><td>55%</td></tr><tr><td>6.75</td><td>60%</td></tr><tr><td>7.25</td><td>65%</td></tr><tr><td>7.75</td><td>70%</td></tr><tr><td>8.25</td><td>75%</td></tr></table> <p>Note-1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note-2: The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the U.P.S.C., is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Grade point	Equivalent Percentage of marks	6.25	55%	6.75	60%	7.25	65%	7.75	70%	8.25	75%
Grade point	Equivalent Percentage of marks																	
6.25	55%																	
6.75	60%																	
7.25	65%																	
7.75	70%																	
8.25	75%																	

Whether age or educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	One year.	<p>By Direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:</p> <p>A) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; And</p> <p>B) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>(Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group "A" Departmental Confirmation Committee: 1. Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi - Chairman 2. Administrative Secretary of the concerned Department – Member 3. Director, Department of Training and Technical Education- Member.	Consultation with UPSC necessary.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor,
 National Capital Territory of Delhi,
 RAJANISH SINGH, Jt. Director/Jt. Secy., TTE